

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक :14.11.2011

विषय: बीबीएमबी द्वारा बाल दिवस पर ऊर्जा संरक्षण पर ऑन द स्पॉट राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित



श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी ऊर्जा संरक्षण चित्रकारी प्रतियोगिता के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

चण्डीगढ़ : भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है। ऊर्जा संरक्षण की जरूरत के बारे में अवगत कराने और शिक्षित करने तथा इस कार्य में उनके माता-पिता को भी शामिल करने हेतु स्कूल के छोटे बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने 14 नवम्बर, 2011 को इन्द्रधनुष ऑडिटोरियम, सैक्टर 5, पंचकुला में यू.टी. चण्डीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्री आभा सैनी, निदेशक, पी एण्ड डी, पीपी, इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी थे। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में लगभग तीन लाख बच्चों ने भाग लिया जिनमें से 150 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित किए गए।

ऊर्जा पर पेंटिंग प्रतियोगिता पहले, स्कूल स्तर पर 4थी, 5वीं तथा 6ठी कक्षा के लिए संचालित की गई, उसके बाद भागीदार स्कूलों से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग में से राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए ज्यूरी द्वारा प्रत्येक राज्य से 50 बच्चे चुने गए। राज्य स्तरीय पेंटिंग

प्रतियोगिता के पहले तीन विजेता नई दिल्ली में आयोजित होनी वाली राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्री एम.पी. सिंह, महामहिम राज्यपाल, पंजाब के प्रिंसिपल सचिव इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर श्री अशोक थापर, सदस्य, विद्युत, बीबीएमबी, श्री एस.एल. अग्रवाल, सदस्य, सिंचाई, बीबीएमबी, श्री एच.के. गुप्ता, सचिव, श्री एस.के. शर्मा, विशेष सचिव, बीबीएमबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा पंजाब, हरियाणा, यूटी, चण्डीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस चित्रकला में भाग लेकर बच्चे ऊर्जा संरक्षण के जन आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने विजेता बच्चों तथा उनके माता पिता को बधाई दी और कहा कि जो बच्चे इस बार विजयी नहीं हुए उन्हें निराश न होकर अगली बार जीतने का प्रयास करना चाहिए।

श्री एम.पी. सिंह, प्रधान सचिव, पंजाब सरकार ने इस अवसर पर श्री शिवराज वी. पाटिल, महामहिम राज्यपाल, पंजाब तथा प्रशासक, यूटी, चण्डीगढ़ का संदेश पढ़ कर सुनाया जिसमें महामहिम राज्यपाल ने बाल दिवस पर ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता में भाग लेना पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम प्रधान मंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि बताई।

श्री अशोक थापर, सदस्य, विद्युत, बीबीएमबी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि द्वारा प्रत्येक राज्य/यू.टी. से प्रत्येक ऊर्जा संरक्षण के पहले तीन विजेताओं को 10,000/- रुपए, 8000/- रुपए तथा 5000/- रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक राज्य/यू.टी. से चुने गए प्रतिभागियों को 1000/- रुपए प्रत्येक के 10 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। सैकरेड हार्ट स्कूल, चण्डीगढ़ के बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय की ओर से सभी प्रतिभागियों को 1000/- रुपए का नकद पुरस्कार एवं उपहार प्रदान किए गए।

प्रत्येक राज्य/यू.टी. से पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम संलग्न हैं।

**List of Winners of Energy Conservation Painting Competition
organised by BBMB**

	Chandigarh	Punjab	Haryana
First	Name : Dhanvi Nair Class : 6th School Name : Mount Carmel School, Sector 47-B, Chandigarh	Name : Kashish Aggarwal Class : 6th School Name : DAV International School, By Pass Road, Verka Chowk, Amritsar	Name : Kashin Sood Class : 5th School Name : The Gurukul Public School, Sector-20, Panchkula
Second	Name : Lavish Neoliya Class : 6th School Name : Govt. Model High School, Sector 28-D, Chandigarh	Name : Divyangna Verma Class : 5th School Name : DAV Public School, Lawrence Road, Amritsar	Name : Spandan Pramanick Class : 6th School Name : Bright Scholor Sr. Sec.School, Sector-10, Sonapat
Third	Name : Srishti Joshi Class : 6th School Name : Strawberry Fields World School, Sector 26, Chandigarh	Name : Kiran Rajput Class :5th School Name : Lala Jagat Narain DAV Model School, Kabir Nagar, Jalandhar	Name : Bhavya Gupta Class : 5th School Name : Aggarsain Public School, Sector-13, Kurukshetra